

**AIR FORCE SCHOOL, JAMMU**

**SESSION-2019-20**

**SUMMER VACATION HOMEWORK**

**CLASS : 2nd**

<b>SUBJECT</b>	<b>ACTIVITY BASED WORK</b>
<b>ENGLISH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make a nest with the help of hay also make a bird with the clay and name it as Grace</li><li>• Listen to english news, write 2-3 headlines daily and mark all the doing words.</li></ul>
<b>HINDI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखो: विद्यालय, गुरु जी, बन्दर, डंडा, छुट्टी, पेड़, रोटी, केला, ताली, भुख, बच्चे</li><li>• नैत्रहीन बच्चों के विद्यालय में जाए और समझे की वह अपने रोज़ के काम कैसे करते है तस्वीरें भी खींचे और अपने शब्दों में वर्णन करें</li></ul>
<b>Maths</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Use postal stamps to build numbers ( Build atleast 4 such numbers) Refer page no. 8 of text book . Do this work on white chart.</li><li>• Do page no.23 and 39 on 3 in one (Activity)notebook.</li><li>• Practice Ch-1 and 2</li><li>• Memorize tables 2 to 8</li></ul>
<b>ENVIRONMENTAL STUDIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visit the local zoo when ever possible and note down the safety measures given to the animals. Make a report with photographs.</li><li>• a) Take a flower vase and plant a small flowery plant on it b) decorate the flower vase nicely. c) Tag your name slip on it.</li></ul>
<b>COMPUTER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make flash cards of input and output devices</li></ul>
<b>G.K</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Health is wealth Accompany your parents to the neighbourhood park and encourage yourself for mornig walk and do simple yoga excercise. Paste the photographs in the notebook.</li></ul>

**Note:1) DO ALL THE WRITTEN WORK IN 3-IN-1 NOTEBOOK**

**2) .REVISE ALL THE SYLLABUS DONE IN THE CLASS.**

**HEADMASTER**